

June 17, 2021

The General Manager
Department of Corporate Services **BSE Limited**25th Floor, P.J Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400001

Scrip Code: 539199

<u>Sub: Newspaper Advertisement Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 29(1)(a) and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith Copy of Newspaper advertisement of the Notice of Board Meeting to consider and approve the Standalone Audited Financial Results for the quarter and Year ended March 31, 2021 published in 'Jansatta' (Hindi) & 'Financial Express' (English) dated June 17, 2021.

Thanking you,

For Moongipa securities Limited

Company Secretary and Compliance Officer

FINANCIAL EXPRESS

16

USS GLOBAL LIMITED (Formerly known as SURNIDHI INVESTMENT LIMITED CIN: L74900DL1993PLC056491 Read office: 1502, 15th Floor, RG Trade Tower.

Netaji Subhash Place, Pitam Pura, New Delhi - 110034 Phone: 011 - 45824477 Website: www.ussgloballtd.com E-mail: surnidhiinvestmentItd@gmail.com

Notice of 3/2021 Board Meeting Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, as amended, Notice is hereby given that the 3/2021 Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, 28th June, 2021 at 3:30 P.M at the Registered Office of the Company, inter alia, to consider and take on record the Audited Financial Results of the Company for the fourth quarter and Year ended March 31st, 2021.

The said information is also available on the Company's website at www.ussgloballtd.com and shall also be available on the website of the stock exchange at www.msei.in

By order of the Board For USS Global Limited (Formerly Known as Surnidhi Investment Limited)

Mohit Gupta Place: New Delhi **Managing Director** DIN: 02366798 Date: 16th June, 2021

Before the Central Government Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 and rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009

In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13 (3) In the matter of K R G B & Associates LLP

having its registered office at A-92, F/F, Duggal Colony, Khanpur, New Delhi - 110062. Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana under section 13 (3) of the Limited Liability Partnership

Act, 2008 seeking permission to change its

Registered office from the "NCT of Delhi." to the

State of "Haryana".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered or send by Registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition supported by an affidavit to the Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana, within 21(twenty one) days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at

For and on behalf of K R G B & ASSOCIATES LLP **GOPAL SINGH BISHT** Dated: 17.06.2021

Place: Delhi **Designated Partner** DPIN: 00523569 Add: D 25, 2nd Floor, RPS Palms, RPS City, Sector- 88, Faridabad, Haryana-121002

its registered office at the address mentioned

Form No. INC-26 (Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014) Advertisement to be published in the newspaper

for change of registered office of the company from one state to another Before the Regional Director,

Northern Region, Delhi and in the matter of Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 In the matter of EXCELLANCE ESTATES

PRIVATE LIMITED having its registered office at D-4/4137, Vasant Kuni, New Delhi -110070

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Centra Government under Section 13 of the Companies Act 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General meeting held on 14" Day of June, 2021 to enable the company to change its Registered office from the state of NCT of Delhi to the state of

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 porta (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region Bench, B-2 Wing, 2" Floor, Paryavaran Bhawan, CGC Complex, New Delhi-110003 within 14 (fourteen days) rom the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at D 4/4137, Vasant Kuni, New Delhi, 110070.

EXCELLANCE ESTATES PRIVATE LIMITED Niranjan Kumar Garodia

For and on behalf of the board

Date: 17.06.2021 (Managing Director) Place: New Delhi DIN-00628207 AHLUWALIA CONSTRUCTION

GROUP

UPTT/GC-01094 DT 4.1.2005

PLOT NO-19, SHOP NO- 2, GROUND FLOOR AHLCON APPTT, SECTOR- 3 VAISHALI GZB

CST/GC- 5073345 DT 7.1.2005 TIN - 09590701827

LOST & FOUND SATBEER SINGH (AUTHORISED

SIGNATORY OF M/s. AHLUWALIA CONSTRUCTION GROUP) WOULD LIKE TO INFORM YOU THAT OUR FIELD BOY IS GOING TO OUR DELHI OFFICE FOR SUBMITTING ENCLOSED) ISSUED BY UPVAT DEPT. THE FIELD BOY HAD PUTTING THE SAID OC STAMPS IN HIS TWO WHEELER SIDE BAG BUT UNFORTUNATELY THESE STAMPS PACKET IS LOST NEAR OKHLA BARRAGE AREA. WHEN HE REACHED AT DELH OFFICE HE HAD NOT FOUND THE PACKET OF THE SAID OC STAMPS. HE RETURNED BACK & SEARCH THE PACKET IN ENTIRE ROUTE BUT THE SAME HAVE NOT FOUND THE PACKET, IT MEANS THESE OC STAMPS

Ahluwalia Construction Group-Ghaziabad

LIST OF LOST OC STAMPS

HAD BEEN LOST.

S.NO.	OC STAMP SERIAL NO
1	AAPQ0462656
2	AAPQ0462657
3	AAPQ0462658
4	AAPQ0462659
5	AAPQ0462660
6	AAPQ0462661
7	AAPQ0462662
8	AAPQ0462663
9	AAPQ0462664
10	AAPQ0462665

SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY E-TENDER NOTICE FOR **ENGINEERING WORKS**

Srl.No.(1) E-Tender No. DRM-ENGG BSP-T-26-21-22, Date 11.06.2021 Work: Supply of welding portion

and welding of rail joints by alumino thermic SKV process (Single shot Crucible with Automatic Tapping Thimble technology) including supervision, tools and plant and consumables etc. under the jurisdiction of ADEN/CPH. Tender value (In Rs.): 86,04,615.00/-Completion Period: 12 Months

Srl.No.(2) E-Tender No. DRM-ENGG BSP-T-27-21-22, Date 11.06.2021

Work: Supply of welding portion and welding of rail joints by alumino thermic SKV process (Single shot Crucible with Automatic Tapping Thimble technology) including supervision, tools and plant and consumables etc. under the jurisdiction of ADEN/RIG. Tender value (In Rs.): 85,79,145.00/-Completion Period: 12 Months

Start date of Submission of Tender From 11:00 hrs. on 25.06.2021 Last date of Submission of Tender Upto 11:00 hrs. on 09.07.2021

The complete information of above e-Tender Notice is available over websites https://www.ireps.gov.in Bids other than e-bids shall not be

accepted against above Tenders. Divl. Railway Manager (Engg.) CPR/10/46 S.E.C. Railway/BSP

f South East Central Railway y @Secrail

financialexp.epap

Place: New Delhi

Dated: 16.06.2021

RASANDIK ENGINEERING INDUSTRIES INDIA LIMITED

CIN: L74210HR1984PLC032293 RASANDIK REGISTERED OFFICE: 14, ROJ-KA-MEO INDUSTRIAL AREA SOHNA, HARYANA – 122 103 Email: cs@rasandik.com | Website: www.rasandik.com

Pursuant to Regulation 29 and 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby inform you that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 29th day of June, 2021, to consider and approve, inter alia, the Audited Financial Results of the Company for the guarter and financial year ended on March 31, 2021.

NOTICE

The information contained in this notice is also available on the website of the Company i.e., www.rasandik.com and the website of the Stock Exchange i.e., www.bseindia.com. For Rasandik Engineering Industries India Limited

Place: Sohna, Haryana Date: June 16. 2020

Pradeep Chandra Nayak Company Secretary

Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI of the Act [Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 andRule 4(1) of the Companies (Authorized to Register) Rules, 2014]

1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after 15 days hereof but before the expiry of 30 days hereinafter to the Registrar at NCT of Delhi and Haryana that YUM PLUM LLP may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited by shares.

holiday camps, amusement parks, guest houses, banquets halls, restaurants, fast

2. The Principal Objects of the company are as follows: i.To carry on business of food processing, hotels, motels, resorts, recreation centre

foods, picnic spot, canteens, caterers, cafes, taverns, pubs, bars, beerhouses refreshment rooms, clubs and lodging or apartments, shopping complex, housekeepers swimming pools, health clubs, baths, dressing rooms, health centre, conference centre, gymnastics, yoga centre, massage and beauty parlors in India and abroad. 3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office at N-146, 1st Floor, Panchsheel Park, New

4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code- 122050, within twenty one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office. Dated this 16thday of June 2021

Name(s) of Applicant 1. Amit Ajwani

(Designated Partner) 2. Ankit Verma (Designated Partner)

E-AUCTION SALE NOTICE (Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)

Paras Spares and Accessories Limited (in Liquidation) 1517/6, Devika Towers, Nehru Place, New Delhi-110019 Email: irpepoch@gmail.com

Sale of Assets owned by Paras Spares and Accessories Limited (in Liquidation) forming part of Liquidation Estate by the Liquidator appointed by the Hon'ble NCLT Bench New Delhi vide order pronounced on 18.01.2021 and certified copy received on 27.01.2021. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform at the web portal of https://www.bankeauctions.com Asset will be live on the E-auction portal from 18.06.2021 for submitting the bids.

Description of Immovable / Movable Assets

Fully paid 18,000 equity shares of Rs. 100 each of Jyotirgamya Advisors Private Limited having CIN: U74140DL2008PTC175832 and Registered office at B-5, First Floor, Capt Gaur Marg, East of Kailash, New Delhi-110065.

Reserve Price EMD Particulars 18,000 Equity Shares of Rs. 100 each INR 10,35,810 103,581/-"bid incremental Value: Rs. 10,000 (Rs. Ten Thousand only)) E-auction date & Time: 19.07.2021 from 05:00 to 07:00 pm (with unlimited extension of 5 min)

E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER IS BASIS" AND "WITHOUT RECOURSE BASIS" as such sale is without any kind of warranties and indemnities through approved service provider C1 India Pvt. Ltd. at https://www.bankeauctions.com. Bids shall be submitted to Liquidator online in the format prescribed. The bid form along

with detailed terms & conditions of complete E-auction process can be downloaded from the website ofhttps://www.bankeauctions.com. The details of the assets identified to be transferred along with the company are also

provided in the above E-Auction Process Document. The Liquidator has absolute right to accept or reject any or all bids or

adjourn/postpone/cancel the E-Auction or withdraw any property or portion thereof from the E-Auction at any stage without assigning any reason thereof. For detailed terms and conditions of E-auction sale, refer TENDER DOCUMENTS available athttps://www.bankeauctions.com. Contact: Mr. Vinod Chauhan at 09813387931 delhi@c1india.com. For Auction Support/ Technical Assistance/

Helpline:Support Landline no: +91 124 4302020 /2021/2022/2023/2024, Support Mobile

no: +91 7291981124 / 7291981125 / 7291981126, email ld: support@bankeauctions.com

Abhishek Anand (Liquidator) Date: 16/06/2021 IP Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00038/2016-2017/10077 Place: New Delhi Office Address: E-103, GK Enclave-I, New Delhi

FORM B PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF

UM LOHIA TWO WHEELERS PRIVATE LIMITED PARTICULARS NAME OF CORPORATE DEBTOR UM LOHIA TWO WHEELERS PRIVATE LIMITED Date of Incorporation of Corporate Debtor 03/03/2015

Authority under which Corporate Debtor Registrar of Companies, Delhi is Incorporated/Registered U50403DL2015PTC343634 Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of Corporate Debtor Address of the registered office & principal Registered Office: TA/207, Ravidas Marg. office (if any) of Corporate Debtor Tuglakabad Extension, New Delhi-110019, IN Date of closure of Insolvency 03/06/2021 Resolution Process Liquidation commencement date 11/06/2021 (Order Copy made available at NCLT Website on 15/06/2021) of Corporate Debtor Name & Registration Number of Insolvency Satya Prakash Regn. No: IBBI/IPA-002/IP-N00906/2019-2020/12920 Professional acting as Liquidator Address and Email of the liquidator B-277, Gali No- 14, Tomar Colony, as registered with the Board Burari, Delhi-110084

Email: cirp.umlohia@gmail.com 15/07/2021 11. Last date for submission of Claims Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi, Bench- VI has ordered the commencement of liquidation of the UM Lohia Two Wheelers Private Limited on 11/06/2021

Address and e-mail to be used for

correspondence with the liquidator

(Order Copy made available at NCLT Website on 15/06/2021).

Email: cs.satyaprakash@gmail.com

B-277, Gali No- 14, Tomar Colony,

Burari, Delhi-110084

The stakeholders of UM Lohia Two Wheelers Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 15/07/2021, to the liquidator at the address mentioned against item No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with the proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties.

SATYA PRAKASH Liquidator of UM Lohia Two Wheelers Private Limited Regn. No: IBBI/IPA-002/IP-N00906/2019-2020/12920 Place: New Delhi

DCM SHRIRAM INDUSTRIES LIMITED CIN:L74899DL1989PLC035140

Regd. Office: 5th Floor, Kanchenjunga Building, 18, Barakhamba Road, New Delhi -110001 **Phone No. :** 011-43745000 Email: investorservices@dcmsr.com, Website: www.dcmsr.com NOTICE

Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ("the Rules"), the Company is mandated to transfer the Dividend for the Financial Year 2013-14, which remained unclaimed for a period of seven years to the IEPF Authority. The corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules.

concerned shareholders at their registered address whose shares are liable to be transferred to IEPF during the F.Y. 2021-22 for taking appropriate action and the details of such shares liable to be transferred to IEPF are also made available on the website of the Company viz www.dcmsr.com. Shareholders concerned may refer to the website to verify the details of their unencashed dividend and the shares liable to be transferred. Shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be

In compliance with the Rules, the Company has communicated individually to the

transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original held by them, to convert it into DEMAT form and transfer in favour of IEPF. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of

the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by **15th September**, **2021**, the Company with a view to comply with the requirements of the Rules, will transfer the dividend to the IEPF by the due date as per

procedure stipulated in the Rules. The corresponding shares on which dividend is unclaimed for seven consecutive years shall also be transferred without any further Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to the IEPF. Shareholders may claim the dividend and

corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares,

if any, from the IEPF authority after following the procedure prescribed in the Rules. For any queries on the above matter, the shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, M/s KFIN Technologies Private Limited, Selenium Tower-B. Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District. Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Telangana - 500032, Email: einward.ris@kfintech.com; Website: www.kfintech.com.

> For **DCM Shriram Industries Limited** O DCM SHRIRAM



MAGMA

Eight Thousands Only)

HL/0179/H/15/000048

DEMAND NOTICE MAGMA FINCORP LIMITED UNDER SECTION 13(2) OF

REGD. OFF: DEVELOPMENT HOUSE, 24 PARK STREET KOLKATA 700016 THE SARFAESI ACT, 2002. You the below mentioned Borrowers/ Co-borrowers /Guarantors have availed Home loans/Loans against Property facility (ies) by mortgaging your Immovable property/ies from MFL. You defaulted in repayment, your loan/s was classified as Non-Performing Assets. A Demand Notice

under Section 13(2) of Securitisation and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002 for the recovery of the outstanding dues sent on last known addresses however the same have returned un-served. Hence the contents of which are being published erewith as per Section 13(2) of the Act read with Rule 3(1) of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 as and by way of Alternate Details of the Borrowers, Co-borrowers, Guarantors, Securities, Outstanding Dues, Demand Notice sent under Section 13(2) and Amount claimed

there under are given as under

Name of the Borrower, Co-Borrower, Amount Due in **Details of the Secured Asset** Guarantor and Loan Amount (Rs.) Rs. 34,20,483.00/-SANJAY SINGH, KANCHAN DEVI ALL THAT PIECE AND PARCEL OF MORTGAGE 09/03/2021 PROPERTY OF PLOT NO. 5, 6, MUSTIL NO. 11 Rupees Thirty Four Lakhs Loan amount Rs. 21,28,000.00/-KILLA NO. 13(8-0), WAKA MOUZA NAGLA GUJRAN. Twenty Thousands Four (Rupees Twenty One Lakhs Twenty TEHSIL & DISTT, FARIDABAD PIN 121001 Hundred Eighty Three

interest thereon. You the Borrower/s and Co-Borrower/s/Guarantors are therefore called upon to make payment of the above mentioned demanded amount with further interest as mentioned hereinabove in full within 60 Days of this Notice failing which the undersigned shall be constrained to take action under the act to enforce the above mentioned security/ies. Please Note that as per Section 13(13) of The Said Act, You are in the meanwhile, restrained from transferring the above-referred securities by way of sale, lease or otherwise without our consent.

For MAGMA FINCORP LTD. Dated: 17.06.2021 Authorized Officer

इंडियन बैंक Indian Bank 🛆 इलाहाबाद ALLAHABAD

LUDHIANA

BRANCH: KALSI NAGAR,

Only) along with interest

till 09/03/2021 and future

Amount

Out Standing

one Crore Seven Lakhs

fifty five thousand seven

hundred forty one and Sixty

eight paisa only) as on

02.04.2021. together with

regard.

Place: Delhi

Dated: June 16, 2021

interest from 03.04.2021

31.-03-2021 | Rs 10755741.68/- (Rupees

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) of SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION of FINANCIAL ASSETS & ENFORCEMENT of SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI ACT)

A Notice is hereby given that the following borrowers have defaulted in the repayment of principal and payment of interest of credit facilities obtained by them from the bank and said facilities have turned Non Performing Assets. The Notice under Section13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act 2002 have been issued by Authorised Officer of Bank to Borrowers and Guarantors on their last known addresses. However, in some of the cases the notices have been returned unserved and in other cases acknowledgemetrs have not been received. As such Borrowers/Guarantors are hereby informed by way of public notice about the same.

Hypothecated

Description of Date of NPA

Date of

Demand Notice

Sr. No. Partners/Mortgagor Assets Kalsi Nagar, Ludhiana Hypothecation M/s Devki Knit Proprietor Ravish Kumar of Stocks and Jain, Street No 4, Guru Vihar, Rahon Bookdebts situated at Street Road, Ludhiana. (Residential Address): No. 4, Guru Vihar, Rahon Road, House No 1, Village Jiwan Nagar, Tehsil Rania, District Sirsa-125075. Ludhiana. It may be noted that under the provisions of the section 13(8) of the Act, right of redemption is available to you.

Name of the Branch.

Borrowers/Guarantors/

by paying the dues of the Bank together with all costs, charges and expenses incurred by the Bank, at any time, before the date of publication of notice, for public auction or inviting quotations or tender from public or private treaty for transfer by way of lease, assignment or sale of the secured assets. The above Borrowers/ Guarantors/ Mortgagors are advised to pay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of publication of this notice, failing which further steps will be taken as per provisions of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 after the expiry of 60 days from the date of publication of this notice. As per Sec. 13 (13) of the Act, on receipt of this notice you are restrained from disposing of or dealing with

the above securities except in the usual course of business without the consent of the bank. Please note any violation of this section entails serious consequences. Borrowers/ Guarantors/ Mortgagors are all also advised to collect the copy of notice from the concerned branch.

Date: 17.06.2021 PLACE:- LUDHIANA **AUTHORISED OFFICER**

STATE BANK OF INDIA, RACPC Ghaziabad Branch 105, NEW ARYA NAGAR, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH 201003, Ph: 0120-4168175, E-mail: sbi.10049@sbi.co.in APPENDIX -IV- A [See proviso to rule 8 (6)] Sale notice for sale of immovable properties

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/physical (whichever applicable) possession of which has been taken by the Authorised Officer of State Bank of India, the Secured Credit will be sold on "As is Where is", As is What is" and Whatever there is" on 09.07.2021, for recovery of Rs. 21,66,8 + Interest thereon to the secured creditor from Sh Sandeep Kr Srivastava S/o Sh S L Srivastava (Borrower) as Sh Ravinder Singh Payal S/o Sh Harish Chandra Payal (Guarantor). The reserve price will be Rs. 14,96,000 and the earnest money deposit will be Rs. 1,49,600/-. (Short description of the immovable property with known encumbrances, if any)

Flat No 5B, 1st Floor, Plot No. 5, Khasra No 26 mi, Shatabdipuram, Pargana Dasna, Tehsil & Distt Ghaziaba Uttar Pradesh, admeasuring 76.17 sq mtrs.

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in State Bank of India, the secur Creditor website https://bank.sbi

Date: 01-06-2021, Place: Ghaziabad Sd/- Authorised Officer, Naresh Kumar Kohli, State Bank of Ir STATE BANK OF INDIA, RACPC Ghaziabad Branch 105, NEW ARYA NAGAR,

GHAZIABAD, UTTAR PRADESH 201003, Ph: 0120-4168175, E-mail: sbi.10049@sbi.co.in APPENDIX -IV- A [See proviso to rule 8 (6)] Sale notice for sale of immovable properties

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/physical (whichever is applicable) possession of which has been taken by the Authorised Officer of State Bank of India, the Secured Creditor, will be sold on "As is Where is", As is What is" and Whatever there is" on 09.07.2021 for recovery of Rs. 11,65,392 + Interest thereon to the secured creditor from Sh Vikram Singh S/o Sh Diwan Singh (Borrower) and Smt Anita W/o Sh Vikram Singh (Co-borrower). The reserve price will be Rs. 7,14,400/- and the earnest money deposit will be Rs. 71,440/-. (Short description of the immovable property with known encumbrances, if any)

Flat No B-387, Tower No 11, Block 13, 3rd Floor, Dinesh Nagar, Pilkhuwa, Pancheel Nagar, Hapur, Uttar Pradesh admeasuring 43.67 sq mtrs.

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in State Bank of India, the secured Creditor website https://bank.sbi

Date: 01-06-2021, Place: Ghaziabad Sd/- Authorised Officer Naresh Kumar Kohli, State Bank of India

Quarter Ended

CIN: L67120PB1993PLC013169 Unit No. 49 B, 3rd Floor, Sushma Infinium, Chandigarh-Ambala Highway, Zirakpur-140603, PB (IN)

Particulars

Email Id: regencyinvestmentsltd@gmail.com

REGENCY FINCORP LIMITED

STATEMENT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED ON 31.03.2021 (Figures in Lacs)

31.03.2021 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 31.03.2020 (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Audited) (Audited) (a) Revenue from operations 338.67 101.47 84.39 356.92 Interest Income 100.61 32.94 160.56 Fees and commision income Net gain on fair value changes Sales of services 1.79 Other Operating Income 5.60 16.79 Total revenue from operations 195,48 139.15 86.18 534.27 0.93 Other Income 139.72 91.16 536.37 Total Income 196.41 Expenses 51.04 (a) Finance costs 58.59 61.33 229.89 (b) Fees and commission expense 4.75 3.82 21.00 (c) Impaiment on financial instruments 28.25 20.25 23.66 75.14 (d) Employee benefits expenses

355.99 361.26 190.37 47.97 (e) Depreciation and amoritisation exp. 7.24 5.17 12.21 21.39 15.59 53.87 86.14 33.17 26.16 128.71 (f) Other expenses 307.80 184.97 123.75 113.07 476.13 Total Expenses 15.97 60.24 53.46 Profit before tax (1-2) 11.44 (21.91)Tax Expense 14.16 (a) current tax 2.97 4.15 15.97 2.45 1.63 (b) deffered tax (credit)/change 18.42 15.79 2.97 4.15 Total tax expense (21.91)41.82 37.67 8.47 11.82 Profit/(Loss) after tax (3-4) Other comprehensive income a (i) Items that will not be reclassified to profit or loss (ii) Income tax related to item that will not be reclassified to profit or loss b (i) items that will be reclassified to profit or loss (ii) Income tax related to items that will be reclassified to profit or loss Total other comprehensive income, net of tax 8.47 11.56 (21.91)41.82 37.67 Total other comprehensive income for period (5+6) Paid-up equity share capital (Face value Rs. 10/- per share): 410.14 410.14 410.14 410.14 410.14 Other equity 10 Earning per Share (not annualised) 0.21 Basic 0.28 (0.53)1.02 0.92 (0.53)1.02 Diluted 0.21 0.28 0.92

These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under

Place: Zirakpur

Date: 15.06.2021

Notes:

Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India 2 The above financial results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2021 has been reviewed by the Audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on June 15, 2021.

The Company does not have any exceptional items to report for the above period. Figures for the previous periods have been regrouped, wherever necessary, to make them comparable with the current period. On behalf of the Board Of Directors

SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION

OFFICE OF THE EX. ENGG. (ELECT)WZ OLD ZONAL BUILDING, RAJOURI GARDEN, ND-27

NIT No.EE/Electrical/WestZone/2021-22/08 Dated: 16/06/2021 Now:- Provision of Fire Fighting including Fire Alarm & PA System. Sprinkler System, Portable Fire Extinguishers, Lift Pressurization, Gas suppression System, Exit Signages and Emergency Lighting, Ventilation System at 100 Bedded Hospital in Tilak Nagar under SDMC.

https://etenders.gov.in/eprocure/app. Ex. Engineer (E)/WZ R.O. No. 20/DPI/S/2021-22

CIN: L74899DL1994PL057941

Pursuant to Regulation 29 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. NOTICE is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, June 24, 2021, inter alia, to consider and approve the Audited Financial Results of the Company

Investor may visit the Websites of the Company www.moongipa.net and the Stock exchange www.bseindia.com for further details in this regard.

For Moongipa Securities Limited

Place: Delhi

CIN: L65993DL1987PC028669 Regd. Office: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh,

Email: moongipac@gmail.com, Website: www.mongipa.com

Pursuant to Regulation 29 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. NOTICE is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, June 24, 2021, inter alia, to

Investor may visit the Websites of the Company www.mongipa.com and the Stock exchange www.bseindia.com for further details in this

Company Secretary and Compliance Officer

Park, 6th Floor, Tower A. Senapati Bapat Marg. Lower Parel, Mumbai - 400 013

availed by them against Jewellery from DCB Bank Limited. We are constrained to conduct auction of the pledged Jewellery as they have failed to pay the entire dues. DCB Bank Limited

No. ID / No. No. ID / No. 14 101892424 Puja Kumari Muzaffarpur Location 15 102019057 Monika Binin 1 101902650 Rashmi Nathani

recalled amount in full , with all interest and charges before the scheduled auction date failing which the jewellery will be auctioned. If the auction is not completed on the specified auction dates, the auction shall continue for 7 subsequent days without further notice .Participation in the auction and acceptance of bids will be at the sole discretion of the DCB Bank.

"whatever there is basis" and "no recourse basis" the bank shall not be liable for any claims elated to the jewellery. Bidders may kindly visit https://egold.auctiontiger.net for detailed terms & conditions for participation in the auctions.

LCRD Division / New Delhi The Federal Towers, U.G.F., 2/2, First Floor,

Ph No.011-40733980, 981, 982

Ref No.:NDLLCRD/SPL- /2021

3(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002. 1) Mr. Nitin Sharma S/o Shri. Chandra Mohan Sharma, carrying on business in the name and style of M/s Krishna Enterprises at 74, Kalwari, Awadhpuri, Sikandra,

Mr. Chander Mohan Sharma S/o Ram Kishore Sharma, both residing at House No.210, Sec-16, Avas Vikas Colony, Near Central Bank, Sikandra, Agra, UP-282007

The lst of you as principal borrower and 2" of you as co-obligants availed a Fast Track WC Limit of Rs.12,00,000/- (Rs.Twelve Lakh Only) on 19.09.2019 and Housing Loan of Rs.20,40,000/- (Twenty Lakh Forty Thousand Only) on 22.08.2019, from The Federal Bank Limited a company registered under the Companies Act having registered office at Alwaye (hereinafter referred to as the bank)

Rs.12.00,000/- and Housing Loan of Rs.20,40,000/- availed from the Bank, Mr.Nitin Sharma has created security interest in favour of the Bank by way of mortgage on 29.08.2019 in respect of the following immovable properties.

DESCRIPTION OF MORTGAGED IMMOVABLE PROPERTY All that piece and parcel of property bearing Plot no.87 admeasuring 42.64

SqMtrsKhasra No.224,225 , Nikhil Magnolia Green, MaujaPathauli, Agra, UP-282008 together with all buildings existing and/or to be constructed bounded on the East by Plot No.88, West by Plot No.86, North by 6 Mtr Wide Road and South by Towards the security of the aforesaid credit facility ie Fast Track WC Limit of

Rs.12.00.000/- availed from the Bank, Mr.Nitin Sharmahas created security interest

in favour of the Bank by way of mortgage on 19.09.2019 in respect of the following DESCRIPTION OF MORTGAGED IMMOVABLE PROPERTY

All that piece and parcel of property bearing Plot No.31, admeasuring 253.34 Sqmtrs, Govardhan Enclave, Khasra No.304, Mauza Dahtora, Agra-282007 together with all

Thousand Two Hundred Twenty Only) is due from you jointly and severally as on 31.05.2021 under your OD- FAST TRACK WC 12125600017066 and a sum of ₹21.81.664/- (Rupees Twenty One Lakh Eighty One Thousand Six Hundred Sixty Four Only) is due from you jointly and severally as on 31.05.2021 under your

For Regency Fincorp Limited **GAURAV KUMAR** MANAGING DIRECTOR DIN: 06717452

Year ended

New Delhi

For The Federal Bank Ltd., Deputy Vice President (Authorised Officer under SARFAESI Act) Dated this the 15th Day of June 2021

other rights and remedies available to the bank for recovering its dues.

The tender documents can be downloaded from the website

MOONGIPA SECURITIES LIMITED

Regd. Office: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi - 110005. Tel: +91-011-41450121

for the quarter and financial year ended March 31, 2021.

Sanjeev Jain

NOTICE

For Moongipa Capital Finance Limited

Registered Office: 601 & 602, Peninsula Business DCB BANK

JEWELLERY AUCTION CUM INVITATION NOTICE

has the authority to remove account (s) / change the auction date (s) without any prior notice. The auction will be conducted online through https://egold.auctiontiger.net on 24th & 25th June 2021 from 11:00 am to 01:00 pm. Sr. Customer Sr. Customer **Customer Name Customer Name**

Please note that the auction shall be on as" is where is basis", "as is what is basis

Date: 15.06.2021 Authorised Officer Place: Muzaffarpur, Patna, Purnia DCB Bank Limited

FEDERAL BANK West Patel Nagar, New Delhi-110008 YOUR PERFECT BANKING PARTNER NOTICE U/S 13 (2) OF SARFAESI ACT 2002, (hereinafter referred to as Act) r/w Rule

Bodla, Agra-282007, U.P.

Also at: Ruby Villa No.87, Village Pathauli, Nikhil Magnolia Green, Pathauli, Agra-282008.UP

through its branch at Agra and after executing necessary security agreements / loan documents in favour of the Bank. Towards the security of the aforesaid credit facilities ie Fast Track WC Limit of

buildings existing and/or to be constructed and bounded on the East by road 18 mtr wide, West by Road 20 feet wide, North Plot others, South by road 40 feet wide The aforesaid hypothecated / mortgaged properties hereinafter referred to as 'the secured assets'. The undersigned being Authorised Officer of the Federal Bank Ltd.

nereby inform you that a sum of of ₹ 13,29,220/- (Rupees Thirteen Lakh Twenty Nine

Housing Loan account 12127300001622 ie a total of Rs.35,10,884/- under your loan account with Agra Branch of the Bank. In view of the default in repayment, your loan account/s is/are classified as Non-Performing Asset, as per the guideline of RBI. All of your as co-obligant/co-borrower and also in the capacity of legal heirs are liable to pay the dues of the Bank. You are hereby called upon to pay the said amount with further interest @ 11.75 % per annum with monthly rests plus penal interest @2% pa from 01.05.2021 in OD- FAST TRACK WC 12125600017066 and @ 8.25% per annum with monthly rests plus penal interest @2% pa from 22.05.2021 in Housing Loan account 12127300001622 till the date of payment and costs within 60 days from the date of this notice, failing which, the Bank will exercise all the powers under section 13 of the Act against you and the above mentioned secured assets such as taking possession hereof including the right to transfer them by way of lease, assignment or sale, or taking over the management of the secured assets for realising the dues without any further notice to you. It is informed that, you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise any of the above mentioned secured assets without the Bank's written consent. In the event of your failure to discharge your liability and the bank initiates remedial actions as stated above, you shall further be liable to pay to the bank all cost, charges and expenses incurred in that connection. In case the dues are not fully satisfied with the sale proceeds of the secured assets, the bank shall proceed against you personally for the recovery of the balance amount without further notice. Your attention is also invited to the provisions of section 13 (8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets (security properties). This notice was issued on 31" day of May 2021 and served on you, but seems not received by you, which necessitated this publication as per the SARFAESI Act. This notice is issued without prejudice to the

Email: moongipas@gmail.com, Website: www.moongipa.net NOTICE

Dated: June 16, 2021

Company Secretary and Compliance Officer MOONGIPA CAPITAL FINANCE LIMITED

New Delhi - 110005. Tel: 011-41450121

consider and approve the Standalone Audited Financial Results of the Company for the guarter and financial year ended March 31, 2021.

Gulshan Ahuja

PUBLIC NOTICE

The below mentioned borrowers have been issued notices to pay the entire dues in facilities

	101905030	riasillili riaurani	10	102013031	WOTING DIPIT
2	101907247	Rohit Nathani	16	102813491	Manikant Kumar
3	102040382	Sanju Devi	17	102819676	Syed Tarique Rahman
4	102619799	Dipak Kumar Singh	18	102873473	Reena Kumari
5	102807778	Ravi Ranjan Kumar	19	102878741	Bilash Sahani
6	102822785	Naushad Quraishi	20	102878742	Sonu Kumar Singh
7	102883514	Pankaj Kumar	21	102883568	Shahnawaz Ali
	Pa	tna Location	22	102885157	Uday Narayan Singh
8	101777751	Amit Kumar		Pu	rnia Location
9	101781677	Ashutosh Kumar	23	102278831	Gopal Kumar Poddar
10	101782403	Mukesh Sharan	24	102313089	Jay Narayan Singh
11	101802985	Shakti Sharan	25	102427051	Nandan Prasad Srivast
12	101824187	Chandan Kumar	26	102800641	Amardeep Bishwas
13	101872658	Usha Gupta	27	102841675	Pawan Kumar Singh

सार्वजनिक सूचना

अनुसार, श्री पिर्थपाल सिंह भंडारी का स्वर्गवास दिनांक 30—04—2021 को अमृतसर, पंजाब में हो गया है और उनकी पत्नी श्रीमती कानन पी. भंडारी ने एक पंजीकृत वसीयत दिनांकित 23—10—1987 प्रस्तत की है।

तदनंतर. उक्त लाभार्थी श्रीमती कनन पी. भंडारी निवासिनी जे—153, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली (वर्तमान निवासी मकान नंबर 1376, मजीटा रोड, अमृतसर, जी.पी.ओ. पंजाब–143001) ने उपरोक्त वसीयत के आधार पर लाभार्थी होने के नाते सम्पत्ति स्पेस नंबर 508, यूजीएफ-71, जीएफ 13 एवं 14. जीएफ 56 एवं 57. जीएफ 24. जीएफ 22. एलजीएफ— 10 एवं 11. एलजीएफ 52, 431 (50 प्रतिशत हिस्सा), 432 (50 प्रतिशत हिस्सा) तथा कार पार्किंग स्पेस नंबर — 03 (सम्पत्ति), वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली—110001 के संबंध में अपना नाम एक सब—लाइसेन्सी / सब—सब—लाइसेन्सी के तौर पर दर्ज करने हेत् आवेदन किया है।

यदि किसी व्यक्ति, एजेन्सी, वित्तीय संस्थान अथवा अन्य किसी को, ऐसा दावा करते हुए, उक्त आशयकृत नामांकन के संबंध में कोई आपत्ति है, वह अपनी आपत्तियां लिखित रूप में, सम्पदा प्रबंधक, सम्पदा विभाग, भारत होटल्स लिमिटेड, पंजीकत कार्यालय बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-110001 के समक्ष, सभी समर्थन दस्तावेजों और विधि के सक्षम न्यायालय के ऐसे उपयुक्त आदेशों / निर्देशों सहित, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर प्रस्तूत कर सकता / सकती है, जिसमें असफल रहने पर ऐसे दावे परित्यक्त माने जाएंगे तथा सक्षम अधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी श्रीमती कनन पी. भंडारी को सब–सब–लाइसेन्सी के तौर पर दर्ज करने के लिए अपेक्षित अनुमित प्रदान कर सकते हैं तथा कोई अनुवर्ती दावा, किसी भी प्रकार का. स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सम्पदा प्रबंधक, भारत होटल्स लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक: 16.06.2021

एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड सीआइएन: L27109DL1995PLC338407

पंजी. एवं संयुक्त कार्यालयः बानी कारपोरेट वन टॉवर, सुईट नं. 308, तीसरा तल, प्लाट नं. 5, जिला कॉमर्शियल सेंटर, जसोला, दिल्ली-110025 टेली: +91-011-48593300, फैक्स: +91-011-4859 3320, ईमेलः cs@mblinfra.com, वेबसाईटः www.mblinfra.com

शेयरधारकों को सूचना

एतदृद्वारा सुचना दी जाती है कि कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 और सामान्य परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुवर्ती 2020-21 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के साथ वार्षिक रिपोर्ट इलैक्टॉनिक विधि के माध्यम से केवल कंपनी के शेयरधारकों (सदस्यों) को प्रदान

कंपनी उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम नोटिस भेजेगी जिन्होंने एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों और/या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत की है। भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, वे अपनी ईमेल आईडी info@mblinfra.com या delhi@linkintime.co.in पर ईमेल भेजकर कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकृत हो सकते हैं। डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपनी ईमेल आईडी अपडेट करने की भी आवश्यकता होती है। एजीएम की कार्यवाही में भाग लेने, मतदान करने और देखने के विवरण तथा निर्देश एजीएम नोटिस में दिए जाएंगे।

> कृते एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि. ह./- अनुभव महेश्वरी कंपनी सचिव

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India 1911 से आपके लिए "केन्द्रिल" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

जी-47, कालिन्दी कून्ज रोड, जसोला, नई दिल्ली-110025 सार्वजनिक सचना

सूचित किया जाता है कि श्री अरबाज अहमद खान की सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया जसोला,

नई दिल्ली शाखा, शाखा नं. 3835 में फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीप्ट है, रु. 78,105, की राशि का, परिपक्वता तिथि 16.09.2021 उक्त प्रतिभृति मद गुम हो गया है तथा पार्टी ने 14.04.2021 को इन्डेमनिटी बांड जमा किया है। यदि किसी व्यक्ति का फिक्स्ड डिपॉजिट मिले तो कृपया उसे सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जसोला, नई दिल्ली शाखा में जमा करें। उक्त फिक्स्ड डिपॉजिट का उपयोग भुगतान/प्रतिभूति/किसी भी प्रकार के ऋण के लिये नहीं किया जा सकता है। भुगतान केवल डप्लिकेट फिक्स्ड डिपॉजिट पर हीं किया जायेगा।

(मुख्य प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

कॉनकॉर concor भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. एक नवरत्व कम्पनी (भारत सरकार का उपक्रम) A Navratna Company (A Govt. of India Undertaking) एनएकबाईसी न्यू एमटीबीपी बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली-110020 ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कॉनकॉर निम्नलिखित कार्य के लिए टेंडरिंग के दो पैकेट सिस्टम में ई-निविदा आमंत्रित करता है: निविदा सं. कॉन/आईटी/1261/21/02

कार्य का नाम मेहान, नागपुर में डिजास्टर रिकवरी साइट की स्थापना के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर लाइसेंस एवं नेटवर्क की परिसर पर टर्नकी आधार पर आपूर्ति, संस्थापन, कमीशनिंग एव कार्यान्वयन के साथ एक-वर्ष वारंटी तथा वारंटी पश्चात एएमसी एवं एक वर्ष एटीएस सहायता हेत् ई-टेंडरिंग के माध्यम से दो निविदा प्रणाली में ऑनलाइन खुली निविदा

अनुमानित लागत रु. 89,63,34,685.41 / - (जीएसटी 18 प्रतिशत सहित) पूर्णता अवधि धरोहर जमा राशि शुन्य (बोली सुरक्षा घोषणा जमा की जानी है) दस्तावेज की कीमत" निविदा प्रक्रिया शल्क रु. 4,000 / - प्लस कर लागू अनुसार (अ-प्रतिदेय) बिक्री की तिथि (ऑनलाइन 17.06.2021 (11.00 बजे) से 07.07.2021 (17.00 बजे तक) 08.07.2021 को 17:00 बजे त

09.07.2021 को 11:30 बजे शीय योग्यता मापदंड, समान प्रकार के कार्य के संका में अनुसद आदि के लिए कृपया वेबसाइट www.concorindia.com पर उपलब्ध विस्तत निर्विदा सुबना का अवलोकन करें लेकिन पूर्णे निर्विदा दस्तावेज केवल वेबसाइट www.tenderwizard.com CCIL से डार्जनलोड किये जा सकते हैं। इसके अलावा, इसे निविदा का शुद्धिपत्र / परिशिष्ट, यदि कोई होगा, तो उसे केवल वेबसाइट www.tenderwizard.com/CCIL एवं सेन्ट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपी) पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए वारपत्र में प्रेस विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। कार्यकारी निदेशक (पीएंडएस) एरिवा-2, कोन नं. 011-41222500

एलसीआरडी डिविजन/नई दिल्ली फेंडरल टॉवर, 2/2, प्रथम तल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 फोन नं. 011-40733980, 981, 982 रिफ. नं.: NDLLCRD/SPL- /2021

आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीदार

सरफ़ेंसी अधिनियम, 2002 की घारा 13(2) (यहां के बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत सूचना 1. श्री नितिन शर्मा पुत्र श्री चन्द्र मोहन शर्मा, मैसर्स कृष्णा एन्टरप्राइजेज के नाम और शैली में व्यवसाय करने वाले, 74, कलवारी, अवधपुरी, सिकन्द्रा, बोदला, आगरा-282007, उ.प्र.

2. श्री चन्द्र मोहन शर्मा पुत्र राम किशोर शर्मा, दोनों निवासी मकान नं. 210, सेक्टर-16, आवास विकास कॉलोनी, निकट सेंट्रल बैंक, सिकन्द्रा, आगरा, उ.प्र.-282007 साथ ही : रुबी विला नं. 87, ग्राम पठौली, निखिल मैग्नोलिया ग्रीन, पठौली, आगरा-282008, उ.प्र.

प्रधान कर्जदार के रूप में आप प्रथम ने तथा सह-दायित्वधारी के रूप में आप द्वितीय ने बैंक के पक्ष में आवश्यक प्रतिभृति समझौते/ऋण दस्तावेज के क्रियान्वयन के पश्चात हमारी आगरा की शाखा के माध्यम से अलवाये में पंजीकृत कार्यालय वाली कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कम्पनी द फेडरल बैंक लिमिटेड बैंक से 19.09.2019 को रु. 12,00,000/- (रुपये बारह लाख मात्र) का फास्ट ट्रैक डब्ल्यूसी लिमिट तथा 22.08.2019 को रु. 20,40,000/- (रुपये बीस लाख चालीस हजार मात्र) का

गृह ऋण ग्रहण किया। बैंक से ग्रहण उपर्युक्त प्राप्त साख सुविधाओं अर्थात रु. 12,00,000/- की फास्ट ट्रैक डब्ल्यूसी लिमिट और रु. 20,40,000/- के गृह ऋण की प्रतिभूति की ओर आपने निम्नलिखित सम्पत्तियों के परिप्रेक्ष्य में 29.08.2019 को बंधक के माध्यम से बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित सृजित किये:

बंधक अचल सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति प्लॉट नं. 84, माप 42.64 वर्ग मीटर, खसरा नं. 224, 225, निखिल मंगोलिया ग्रीन, मौजा पठौली, आगरा, उ.प्र.-282008 का सम्पूर्ण भाग तथा वर्तमान तथा/अथवा निर्मित होने वाले समस्त भवन, सीमाएं : पूर्व : प्लॉट नं. 88, पश्चिम : प्लॉट नं. 86, उत्तर 6 मीटर चौड़ी सड़क तथा दक्षिण अन्य की सम्पत्ति।

बैंक से ग्रहण उपर्युक्त ऋण सुविधा अर्थात रु. 12,00,000/- (रुपये बारह लाख मात्र) का फास्ट ्रैक डब्ल्युसी लिमिट की ओर श्री नितिन शर्मा ने निम्नलिखित अचल सम्पत्तियों के परिप्रेक्ष्य में 19.09.2019 को बंधक द्वारा बैंक के पक्ष में प्रतिभूत हित सृजित किए।

बंधक अचल सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति प्लॉट सं. 31, माप 253.34 वर्ग मीटर, गोवर्धन एन्कलेव, खसरा नं. 304, मौजा दहतोरा, आगरा-282007 का सम्पूर्ण भाग तथा वर्तमान तथा/अथवा निर्मित होने वाले समस्त भवन, सीमाएं पूर्व : 18 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिम : 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर : अन्य के प्लॉट, दक्षिण : 40

उपर्युक्त दृष्टिबन्धक/गिरवीकृत सम्पत्तियों को इसके बाद 'प्रतिभूत आस्ति' कहा जायेगा। अधोहस्ताक्षरी फे-डरल बैंक लि. के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते आपको एतद्वारा सुचित करता है कि आपके पास बैंक की आगरा शाखा के साथ 31.05.2021 तक आपके ओडी फास्ट ट्रैक डब्ल्यूसी 12125600017066 के तहत संयक्त रूप से तथा अलग-अलग रु. 13,29,220/- (रुपये तेरह लाख उनतीस हजार दो सौ बीस मात्र) तथा 31.05.2021 तक आपके गृह ऋण खाता 12127300001622 के तहत संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग रु. 21,81,664/- (रुपये इक्कीस लाख इक्यासी हजार छः सौ चौंसठ मात्र) अर्थात कुल रु. 35,10,884/- बकाया है। पुनर्भुगतान में चूक करने के कारण आपके ऋण खाते/खातों को आरबीआई के दिशा-निर्देश के अनुसार 30.03.2021 को नॉन-परफॉर्मिंग आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। सहदायित्वधारी/सह-कर्जदार के रूप में विधिक उत्तराधिकारियों की क्षमता में आप सभी बैंक के बकाया

एतद्वारा आपको इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान तथा लागतों की तिथि तक ओडी फास्ट ्रिक डब्ल्यूसी 12125600017066 में 01.05.2021 से मासिक रेस्ट्स सहित 11.75% की वार्षिक दर से ब्याज तथा 2% वार्षिक की दर से दण्डात्मक ब्याज और गृह ऋण खाता 12127300001622 में 22.05.2021 से मासिक रेस्ट्स सहित 8.25% की वार्षिक दर से ब्याज तथा 2% वार्षिक की दर से दण्डात्मक ब्याज सहित कथित राशि का भगतान करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर बैंक बिना कोई अन्य सचना दिये अधिनियम की धारा 13 के तहत समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उपर्युक्त प्रतिभृत आस्तियों पर कब्जा करने सहित उन्हें बकाया वसली के लिए प्रतिभृति आस्तियों को पट्टे, आवंटन अथवा विक्रय के माध्यम से अन्तरित करने या उन पर प्रबन्धन के अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको सूचित किया जाता है कि बैंक की बिना लिखित सहमित के उपर्युक्त प्रतिभृत आस्तियों में से आप किसी का भी विक्रय, पट्टे या अन्य विधि द्वारा अन्तरण नहीं करेंगे। अपने दायित्व के निर्वहन में असफल रहने की स्थिति में और उपर्युक्त के अनसार बैंक के उपचारात्मक कार्यवाही करने की स्थिति में आप इस सम्बन्ध में आयी सभी लागत, प्रभार तथा व्यय बैंक को देने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभूत आस्तियों की विक्रय कार्यवाही से बकाये की वसुली नहीं हो पाती है तो बैंक आपको बिना कोई अन्य सुचना दिये शेष राशि की वसुली हेतु आपके विरुद्ध व्यक्तिगत कार्यवाही करेगा। प्रतिभूत आस्तियों (प्रतिभूत सम्पत्तियों) को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा

के परिप्रेक्ष्य में आपका ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है। यह सूचना बैंक के अपने बकायों की वसूली हेतु उसके पास उपलब्ध अन्य अधिकारों तथा उपचारों के पूर्वाग्रह के बिना जारी की गयी है। यह सूचना 31 मई, 2021 को निर्गत की गयी थी और आपके पास भेजी गयी थी किन्त प्रतीत होता है कि आपने इसे ग्रहण नहीं किया जिसके कारण सरफैसी अधिनियम के अनसार इस प्रकाशन की आवश्यकता पड़ी। यह सूचना बैंक को अपने बकायों की वसूली के लिए उपलब्ध अन्य अधिकारों तथा उपचारों के पूर्वाग्रह रहित जारी की गयी है।

कृते फेडरल बैंक लिमिटेड, उप उपाध्यक्ष (सरफ़ेसी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी आज दिनांक 15 जून 2021

www.readwhere.com

देश का निर्यात जून में अब तक 46 फीसद बढ़ा

वाणिज्य मंत्रालय के प्रारंभिक आंकडों के अनुसार इंजीनियरिंग, रत्न व आभूषण और पेट्रोलियम उत्पाद जैसे क्षेत्रों के बेहतर इंजीनियरिंग, रत्न व आभूषण और प्रदर्शन के कारण एक से 14 जून के दौरान भारत का निर्यात 46.43 फीसद बढकर

ägän

नई दिल्ली, 16 जून (भाषा)। 14.06 अरब डॉलर हो गया। इस दौरान आयात भी 98.33 फीसद बढकर 19.59 अरब डॉलर रहा। समीक्षाधीन अवधि में पेट्रोलियम उत्पादों जैसे क्षेत्रों के निर्यात में अच्छी वृद्धि दर्ज हई।

जगन लैम्प्स लिमिटेड (CIN: L31501HR1993PLC033993)

पंजी. कार्यालयः नरेला पियाव मनिहारी रोड, कुंडली, जिला सोनीपत-131028, हरियाणा

टेली.: + 918814805077, ई-मेल: sales@jaganlamps.com, वेबः www.jaganlamps.com 31.03.2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार

क्रम	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त वा
सं. │		31.03.2021 (अंकेक्षित)	31.03.2021 (अंकेक्षित)	31.03.202 (अंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय	1037.74	3138.61	594.07
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	102.03	290.53	19.05
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	102.03	290.53	19.05
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	72.39	208.41	33.13
5.	अविध हेतु कुल व्यापक आय (अविध हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	68.91	204.93	33.13
6.	इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10/- प्रति)	688.95	688.95	688.95
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	- 1	1464.65	-
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)	* *		
	1. मूल	1.00	3.02	0.48
	2. तरल	1.00	3.02	0.48

1. उपरोक्त परिणामों की ऑडिट किमटी द्वारा विधिवत समीक्षा की गई तथा 15.06.2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा

2. उपरोक्त सेबी (सुचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 33 अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज के पास दाखिल की गई 31.03.2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 31.03.2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप कम्पनी की वेबसाईट www.Jaganlamps.com तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.bseindia.com पर उपलब्ध हैं। . कम्पनी ने कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015, तिथि तक यथा संशोधित की धारा 133 के अंतर्गत भारतीय लेखा मानक (इंड

एएस) अपनाई है। उक्त संक्रमण उसके अंतर्गत जारी संबंधित नियमावली के साथ पठित अधिनियम के अंतर्गत अधिसचित तात्कालिक लेख मानकों से किया गया है। ।. 15 जून, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल ने एफएव 2020-21 के लिये रु. 1 प्रति शेयर (सम मूल्य रु. 10.00 प्रति

शेयर) के अंतिम लाभांश का विचार तथा सिफारिश किया है। निदेशक मंडल के लिये तथा उसकी ओर से

जगल लैम्प्स लिमिटेड तिथिः 15 जून, 2021 हस्ता. स्थानः कुण्डली आशीष अग्रवाल (प्रबंध निदेशक)

[नियम 8 (1) देखें] नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना यहां नीचे तालिका में वर्णित तिथि को जारी कर संबंधित ऋणधारकों को उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक एवं गारंटर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदूद्वारा एवं गारन्टर तथा आम जनता को सुचित किया जाता है नीचे तालिका में वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदहारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस राशि

कम सं.	ऋणधारक गारन्टर्स	गिरवी सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना तिथि	ट्रस्टी के रूप में कार्यस्त	बकाया राशि
			कब्जा की तिथि	अनुबंध तिथि	
1.	गोयल	सम्पत्ति सं. 41/10 (41/19 का भाग), ईस्ट आजाद नगर, दिल्ली-110051 का सभी भाग तथा हिस्सा। पूर्वः 20 फीट चौड़ा रोड, पश्चिमः सम्पत्ति सं. एमबी-69, दक्षिणः 6 फीट संकीर्णं गली, उत्तरः 20 फीट चौड़ा रोड	16.09.2019 14.06.2021	मैग्मा आरएआरसी 031 ट्रस्ट 24.03.2017	रु. 13,42,655.39पी (रुपये तेर लाख बयालिस हजार छः सौ पचा एवं पैसे उन्तालिस मात्र) 16.06.2019 को
2.	लि. २. श्री आमत मार्वा ३. श्री	फ्लैट नं. एएम एन 0172204, टावर 17, 21वां तल, जयपी अमन, सेक्टर 151, नोएडा–20130, जिला गौतम बुध नगर, माप लगभग सुपर एरिया 190.4496 वर्ग मी (2050 वर्ग फीट रेफ. यूनिट नं.: टावर नं. 17, एएमएन 0172204, लोअर एलबीएल प्लान ड्यूप्लेक्स यूनिट, अमन, जयपी ग्रीन्स, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुध नगर (उ.प्र.) का सभी भाग तथा हिस्सा।	Control of the Control	मैग्मा आरएआरसी 031 ट्रस्ट 24.03.2017	31.01.2018 को रु. 67,71,113.62पी (रुपये सङ्ग् लाख इकहत्तर हजार एक सौ तेर एवं पैसे बासठ मात्र)

युनियन बैंक

To Anethra

क्षेत्रीय कार्यालय-प्रथम तल, बी.डी.ए. कॉम्पलेक्स, प्रियदर्शनी नगर, बरेली (यू.पी)-243122

इसके द्वारा सुचित किया जाता है कि किस्त/ब्याज/मूल ऋण का भूगतान न करने के कारण, नीचे उल्लिखित खातों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमने अपने अंतिम उपलब्ध पतों पर पंजीकृत डाक के माध्यम से सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत नीचे दी गई सुविधाओं के कारण ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ पूरे बकाया की मांग की थी या तो उन्हें वापस लौटा दिया गया या उनकी पावती नहीं मिली और जैसे उन्हें सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उसी के बारे में सूचित किया गया हम इस प्रकाशन की तारीख़ से 60 दिनों (साठ दिनों) के भीतर पूर्ण रूपें से भुगतान होने तक अनुबंधित देर पर नीचे बताई गई राशि का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित बोरोअर्स/गार्रटर्स/मोटीजर्स का आह्वान करते हैं। डिफॉल्ट रूप में, कीनून के तहते उपलब्ध बैंक के अन्य अधिकारों का उपयोग करने के अलावा, बैंक किसी भी या सभी शक्तियों का

नोटिस U/S 13(2) के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण विलीय संपत्ति एवं सुरक्षा हित अधिनियम 2002 का प्रवर्तन

शाखा का नाम	खाते का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण एवं स्वामी का नाम	एन.पी.ए. तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि	डिमांड नोटिस की धनराशि
बिलासपुर, रामपुर	गुरु नानक आटा चक्की प्लान्ट प्रोप्राइटर: श्री जसपाल सिंह, पुत्र देवेन्द्र सिंह, ग्राम-सिकरोरा, तह-विलासपुर, जिला-रामपमुर यू.पी244921 गारन्टर: देवेन्द्र सिंह पुत्र सिंतन्दर सिंह, ग्राम-सिकरोग, तह-विलासपुर, जिला गमपुर, उ.प्र.	व्यवसायिक सम्पत्ति (नॉन कृषि भूमि गाटा सं. 231) के सभी भाग व अंश, जसपाल सिंह, स्थित ग्राम सिकरोरा, तहबिलासपुर, जिला-रामपुर के नाम है। जिसका मूल्य (वैल्यु) 36 लाख रु. है व जिसकी पैमाईश 0.152 हेक्टेयर या 0.375 एकड़ है। सीमायें: उत्तर-कैनल, दक्षिण-लिंक रोड, पूरव-विक्रेता व अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम-देवेन्द्र सिंह की सम्पत्ति	30-04-2021	04-06-2021	Rs. 27,23,545.17 + Futher Interest
बिलासपुर, रामपुर	मैसर्स श्री बांके बिहारी ट्रेडर्स प्रॉप्राइटर: श्री अंकित अग्रवाल, मोह. साह्कारा, विलासपुर, तह.बिलासपुर, जिला रामपुर (उ.प्र.) गारन्टर: श्री अंकित अग्रवाल एवं संचित अग्रवाल पुत्र नरेन्द्र अग्रवाल, मोह. साह्कारा, विलासपुर, तह. बिलासपुर, जिला रामपुर (उ.प्र.)	व्यवसायिक सम्पत्ति के सभी भाग व अंश, अंकित अग्रवाल एवं संचित अग्रवाल, स्थित केमरी तिराहा के सामने, रामपुर रोड, बिलासपुर, जिला रामपुर के नाम है। जिसका मूल्य (वैल्यु) 372 लाख रु. है व जिसकी पैमाईश 2977. 47 वर्ग मीटर नॉन एग्रीकल्चर लैण्ड है। सीमायें: उत्तर-सुखा देवी की सम्पत्ति, दक्षिण-बिलासपुर-रामपुर रोड, पूरब-वसीम की दुकान, पश्चिम-मनीष गुप्ता की दुकान	31-03-2021	12-05-2021	Rs. 74,15,988.06 + Futher Interest
रामपुर गाडेंन, बरेली	मैसर्स श्री अग्रवाल टैन्ट हाउस प्रॉपर्टी: श्री प्रदीप अग्रवाल, शान्ती विहार, सिठौरा रोड, बरेली (उ.प्र)-243001 गारन्टर: श्रीमती शालिनी अग्रवाल, शान्ती विहार, सिठौरा रोड, बरेली	ये बंधक आवासीय मकान, जो कि श्री प्रदीप अग्रवाल एवं श्रीमती शालिनी अग्रवाल खेत नं. 649, शान्ती विहार, सिठौरा रोड, बरेली, के नाम है। जिसकी पैमाईश 190.62 वर्ग मीटर है। सीमायें: पुरब-सुनीता शर्मा की सम्पत्ति, पश्चिम-अमोदनी देवी व श्री कृष्ण अग्रवाल की सम्पत्ति, उत्तर-रोड 24 फिट चौड़ा, दक्षिण-छत्रपाल की सम्पत्ति	31-03-2021	07-04-2021	Rs. 12,99,657.00 + Futher Interest
बरेली मेन ब्रान्च	विनीत मेडिकल हाल प्रॉप्राइटर : विष्णु अग्रवाल, 551, साह्कारा, बरेली, गारन्टर : 1. संगीता अग्रवाल, 551, साह्कारा, तह. व जिला बरेली 2. संचित कुमार अग्रवाल, 535, साह्कारा, छाता वाली गली, तह. व जिला बरेली	ये आवासीय मकान, खसरा नं. 552 का भाग जो कि संगीता अग्रवाल पत्नी स्व. विनीत अग्रवाल, साहूकारा, बरेली के नाम है। जिसकी पैमाईश 125.41 वर्ग मीटर है। सीमायें: उत्तर-मन्नू अग्रवाल व कपूर का मकान, दक्षिण-साहूकारा फाटक से जुड़ी गली, पूरब-रास्ता गली 6 फिट चौड़ी, पश्चिम-विनीत का मकान	31-03-2021	13-04-2021	Rs. 36,75,034.05 + Futher Interest
बिलासपुर, रामपुर ब्रान्च	श्री बालाजी मार्बल्स एण्ड सैनिटरी स्टोर प्रॉप्राइटर: श्रीमती अरु अग्रवाल पत्नी अंकित अग्रवाल, मोहल्ला साहुकारा, विलासपुर, तह. बिलासपुर, जिला रामपुर गारन्टर: अकित अग्रवाल व संचित अग्रवाल पुत्र नरेन्द्र अग्रवाल, मोहल्ला साहूकारा, बिलासपुर, तह. बिलासपुर, जिला रामपुर, उ.ग्र.	व्यवसायिक सम्पत्ति (नॉन कृषि भूमि) के सभी भाग व अंश, श्री ऑकित अग्रवाल व संचित अग्रवाल, स्थित केमरी तिराहा के सामने, रामपुर रोड, बिलासपुर, जिला-रामपुर के नाम है। जिसकी पैमाईश 2977.47 वर्ग मीटर है। सीमायें : उत्तर-सुखा देवी की सम्पत्ति, दक्षिण-बीसलपुर-रामपुर रोड, पूरब-वसीम की दुकान, पश्चिम-मनीष गुप्ता की दुकान	31-03-2021	11-05-2021	Rs. 50,27,720.44 + Futher Interest
शाहजहाँपुर ई.सी.ची. ब्रान्च	श्रीमती कुसुम पत्नी देवेन्द्र गुप्ता ग्राम-जौराभूद, तह तिलहर, जिला-शाहजहाँपुर गारन्टर: 1. श्री देवेन्द्र गुप्ता पुत्र अशर्फी लाल (बंधककर्ता), रिफयाबाद कलां, पोस्ट-कलां,	प्राथमिक सुरक्षा: (1) बैंक वित्त से सृजित अस्थियों पर दृष्टिबंधक/प्रथम प्रभार जो कि मवेशी शेंड है। जिसमें बायोगेंस संयंत्र, दुधारू मवेशी (100 नग), डेयरी उपकरण जैसे भूसा कटर, दुध के डिब्बे, मापने की किट, दुध देने की मशीन पानी की व्यवस्था आदि। जमानत की सुरक्षा: (2) व्यावसायिक प्लॉट, पैमाईश 30 वर्ग मीटर जो कि श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता, स्थित ग्राम रिफयाबाद कलां, तह. जलालाबाद, जिला शाहजहाँपर के नाम है। जिसकी सेल डीड नं. 2474 गाटा सं. 186. बिक्री		11-05-2021	Rs. 88,31,758.97 + Futher Interest

विलेख दिनांक 09.06.2005 है। सीमायें: प्रब-श्री कुमार, पश्चिम-राम

(3) व्यावसायिक प्लॉट, पैमाईश 156-17 वर्ग मीटर, गाटा सं. 477 (ए), 116

80 वर्ग मीटर व गाटा सं. 477 (बी.) 39.37 वर्ग मीटर एस.डी.एम.

जलालाबाद, शाहजहाँपुर द्वारा जारी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के माध्यम

से। जो कि श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता, स्थित गाटा सं. 477(ए) ग्राम रिफयाबाद

कलां, तह. जलालाबाद, जिला शाहजहाँपुर के नाम है। सीमायें: (477 ए)

पुरब-सुरेश चन्द्र, पश्चिम-द्वारिका प्रसाद, उत्तर-सड़क पी.डब्ल्यू.डी.

दक्षिण-जूनियर हाई स्कुल। (477 बी) पूरब-रामस्वरूप की दुकान व मकान,

पश्चिम-छगन लाल की दुकान, उत्तर-फर्रूखाबाद-बदायूँ रोड,

(4) यह व्यावसायिक सम्पत्ति, पैमाईश, 462.52 वर्ग मीटर (मैसर्स सूर्या

होटल) श्री राहुल आनन्द के नाम पर लाला तेली की बजरिया (टी.पी. नं. 68)

पर जिला शाहजहाँपुर में स्थित है। सीमायें: पार्ट 1 : पुरब-सड़क,

पश्चिम-सुनील कुमार चटर्जी, उत्तर-श्रीमती राम मोहनी व राधे श्याम व सड़क

आदि, दक्षिण-सबेदार मास्टर। पार्ट 2 : पुरब-श्री राम, पश्चिम-गली,

(5) यह आवासीय भूमि व भवन, (सर्वे प्लॉट नं. 553, 556, 557 व पैमाईश, 1545

वर्ग मीटर) शहर खास उत्तरी जेड ए, चुंगी के अन्दर, लाला तेली बाजार, सदर,

जिला शाहजहाँपुर में स्थित है। **सीमायें: पूरब**-राम प्रताप आदि, **पश्चिम**-रमेश

चन्द्र कश्यप, उत्तर-सी.सी. लेन, दक्षिण-राम लाल सक्सेना आदि ।

निवास, उत्तर-श्रीमती क्सूम लता, दक्षिण-कलां उसावां रोड ।

इसके अलावा, उधारकर्ता/गारंटर/मोर्टगेजर्स को निम्नानुसार सचित किया जाता है:

जिला-शाहजहाँपुर

जिला-शाहजहाँप्र

2, श्री राहुल आनन्द, पुत्र रितेश

कुमार आनन्द (बंधककर्ता),

सुर्या होटल, लाला तेली की

बजरिया, माल गोदाम रोड.

SARFAESI अधिनियम की धारा 13 (13) के संदर्भ में, आप इस नोटिस के प्रकाशन के बाद, बिक्री के माध्यम से स्थानांतरण, पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में अन्य) सुरक्षित संपत्ति में से कोई भी नहीं करेंगे बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपर्युक्त। आपको यह भी सुचित किया जाता है कि इस वैधानिक निषेधाजा/संयम का कोई उल्लंघन, जैसा कि उक्त अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है, अपराध है। यदि किसी कारण से, सुरक्षित संपत्तियां व्यापार के सामान्य पाठघक्रम में बेची जाती हैं या पट्टे पर दी जाती हैं, तो बिक्री की गई आय या आय को बैंक के पास /उसके पास जमा/प्रेषित किया जाएगा। आपको इस तरह की प्राप्ति/आय के उचित खाते को प्रस्तुत करना होगा। अन्य सुरक्षित परिसंपत्तियों को लागु करने के लिए बैंक अपने अधिकार सुरक्षित रखता है।

कृपया इस नोटिस के तहत इस मांग का अनुपालन करें और सभी अप्रियता से बचें। अनुपालन न करने की स्थिति में, सभी लागतों और परिणामों के लिए आपको उत्तरदायी उहराते

मुकदमे/मुकदमेवाजी में बैंक के अधिकारों के पक्षपात के विना हो सकता है। नोट : इस विज्ञापन में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर अंग्रेजी के प्रकाशन को मान्यता दी जायेगी।

दक्षिण-आराजी विक्रेता।

उत्तर-गली, दक्षिण-महेन्द्र सिक्का।

दिनांक : 17.06.2021 स्थान-बरेली

सरकार ने डीएपी खाद पर सबसिडी में 700 रुपए की बढ़ोतरी की

नई दिल्ली, 16 जून (भाषा)।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को हुई बैठक में डीएपी उर्वरक पर प्रति बोरी सबसिडी में 700 रुपए की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। इससे सरकारी खजाने पर 14,775 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा है।

सरकार इस फैसले के जरिए यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वैश्विक कीमतों में वृद्धि के बावजूद किसानों को डीएपी उर्वरक पुरानी दरों पर ही सुलभ हो। देश में यूरिया के बाद उर्वरकों में सबसे अधिक खपत डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की होती है। पिछले महीने केंद्र ने डीएपी उर्वरक पर

सबसिडी 140 फीसद बढ़ाने का फैसला किया था। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया था।

मीडिया को जानकारी देते हुए रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने किसानों के लाभ के लिए डीएपी उर्वरक के लिए सबसिडी राशि बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि किसानों को 1,200 रुपए प्रति बोरी की पुरानी दर से डीएपी मिलता रहेगा। एक बोरी में 50 किलो खाद होती है। उनके अनुसार किसानों को राहत देने के लिए डीएपी उर्वरक की सबसिडी 500 रुपए प्रति बोरी से बढ़ाकर 1,200 रुपए प्रति बोरी कर दी

गई है। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी खजाने पर अतिरिक्त सबसिडी का बोझ 14,775 करोड़ रुपए का होगा।

पिछले साल डीएपी की वास्तविक कीमत 1,700 रुपए प्रति बोरी थी, जिस पर केंद्र सरकार 500 रुपए की सबसिडी दे रही थी। इसलिए कंपनियां किसानों को खाद 1,200 रुपए प्रति बोरी में बेच रही थीं। वैश्विक कीमतों में वृद्धि के साथ डीएपी की वास्तविक कीमत 2,400 रुपए प्रति बोरी पर पहुंच गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को 1,200 रुपए प्रति बोरी की पुरानी दर पर डीएपी मिले, केंद्र ने संबसिडी को बढ़ाकर 1,200 रुपए प्रति बोरी करने का फैसला किया है।

शेयर बाजारों में तेजी पर लगा विराम, सूचकांक में 271 अंक की गिरावट

मुंबई, 16 जून (भाषा)।

घरेलू शेयर बाजारों में चार कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर बुधवार को विराम लग गया। बंबई शेयर बाजार का सुचकांक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी रेकॉर्ड ऊंचाई से नीचे बंद हुए। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक समीक्षा बैठक के परिणाम आने से पहले निवेशकों के सतर्क रुख के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडएफसी व एचडीएफसी बैंक में जोरदार बिकवाली से यह गिरावट आई।

तीस शेयरों पर आधारित सूचकांक 271.07 अंक यानी 0.51 फीसद की गिरावट के साथ 52,501.98 अंक पर बंद हुआ। मंगलवार को यह 52,773.05 अंक के रेकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ था। निफ्टी भी 101.70 अंक यानी 0.64 फीसद टुटकर रेकॉर्ड स्तर से नीचे 15,767.55 अंक पर कारण खासकर धातु और वित्तीय शेयरों में बिकवाली है। सूचकांक के नीचे आने में रिलायंस, अडाणी पोर्ट्स और एचडीएफसी का मुख्य योगदान रहा।

सूचकांक के शेयरों में करीब दो फीसद की गिरावट के साथ सर्वाधिक नुकसान में पावरग्रिड का शेयर रहा। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलएंडटी, अल्ट्राटेक सीमेंट और बजाज फाइनेंस में भी गिरावट रही। दूसरी तरफ नेस्ले, एनटीपीसी,

ओएनजीसी, बजाज फिनसर्व, हिंदुस्तान यूनिलीवर और इन्फोसिस समेत अन्य शेयर लाभ में रहे।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि फेडरल रिजर्व की नीतिगत घोषणा से पहले वैश्विक बाजारों में सतर्क रुख के साथ घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट आई। अमेरिका में कीमतों में वृद्धि से मुद्रास्फीति प्रवृत्ति को लेकर चिंता बढ़ी है। हालांकि फेडरल रिजर्व नरम रुख बनाए रखता है और अल्पकालीन मुद्रास्फीति दबाव को लेकर शांत टिप्पणी करता है, तो इससे बाजार में तेजी आ सकती है। चाइस ब्रोकिंग ने एक रिपोर्ट में कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले घरेलू बाजार पर कमजोर वैश्विक रुख का असर रहा।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के खुदरा शोध प्रमुख दीपक जसानी ने कहा कि एशियाई बाजारों में कमजोर रुख और अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैठक के नतीजे आने से पहले घरेल शेयर बाजारों में चार दिन से जारी तेजी पर विराम लगा और दोनों बंद हुआ। निफ्टी में गिरावट का प्रमुख रेकॉर्ड ऊंचाई से नीचे बंद हुए। मझोली कंपनियों और छोटी कंपनियों के सचकांक में क्रम से 0.95 और 0.68 फीसद की िगरावट आई। खंडवार सूचकांकों में बीएसई धातु 2.58 फीसद, बीएसई इंडस्ट्री 1.62 फीसद, बीएसई ऊर्जा 1.43 फीसद, बीएसई पावर 1.33 फीसद और बीएसई धातु 1.32 फीसद नीचे आए।

> इस बीच, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 0.14 फीसद मजबूत होकर 74.09 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की विनिमय दर एक पैसे की मामूली गिरावट के साथ 73.32 पर रही। शेयर बाजार के पास उपलब्ध आंकड़े के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक पूंजी बाजार में शुद्ध लिवाल रहे।

कोरोना की दूसरी लहर में अधिकतर नए कर्मचारियों ने गंवाई नौकरी

मुंबई 16 जून (भाषा)।

फार्च्यून 500 सूची की कंपनियों के बीच कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान नौकरी गंवाने वालों में ज्यादातर नए और उसके बाद सबसे पुराने कर्मचारी अधिक रहे। भारत में अप्रैल 2021 के दौरान दो हजार लोगों के बीच यह सर्वे कराया गया। वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी एफआइएस

के सर्वे के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर में 24 साल से कम आयु सीमा वर्ग

में 11 फीसद कर्मचारियों की नौकरी स्थायी रूप से छूट गई। वहीं 55 साल से अधिक आयु वाले छह फीसद कर्मचारियों की नौकरी स्थायी रूप से चली गई। भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने वाले शोध संस्थान सेंटर फार मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी ने मई में कहा था कि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण देश में एक करोड़ से अधिक भारतीयों की नौकरी चली गई और बेरोजगारी दर 12 महीने के उच्च स्तर लगभग 12 फीसद को छु गई है।

मूंगिप्पा सिक्योरिटीज लिमिटेड सीआईएनः L74899DL1994PL057941

पंजीकृत कार्यालयः 18/14, डब्ल्यू.ई.ए. पूसा लेन, करोल बाग, नई दिल्ली-110005. **फोनः** +91-011-41450121 ईमेलः moongipas@gmail.com, वेबसाइटः www.moongipa.net

सूचना सेबी (लिस्टिंग दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के विनियम 29 एवं 47 के अनुपालन में, एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक

मंडल की बैठक गुरुवार, 24 जून, 2021 को होगी, जिसमें कम्पनी के 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर स्वीकृत किया जाएगा निवेशक इस संबंध में और विवरण के लिए कम्पनी की वेबसाइट www.moongipa.net और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट

www.bseindia.com पर उपलब्ध है। कृते मुंगिप्पा सिक्योरिटीज लिमिटेड दिनांक : 16 जून, 2021 संजीव जैन

स्थान : दिल्ली

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

मंगिप्पा कैपिटल फाइर्नेस लिमिटेड सीआईएनः L65993DL1987PC028669 पंजीकृत कार्यालयः 18/14, डब्ल्यू.ई.ए. पूसा लेन, करोल बाग, नई दिल्ली-110005. फोन: 011-41450121 ईमेलः moongipac@gmail.com, वेबसाइटः www.mongipa.com

सेबी (लिस्टिंग दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के विनियम 29 एवं 47 के अनुपालन में, एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरूवार, 24 जून, 2021 को होगी, जिसमें कम्पनी के 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर स्वीकृत किया जाएगा।

सूचना

निवेशक इस संबंध में और विवरण के लिए कम्पनी की वेबसाइट www.mongipa.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

कृते मूंगिप्पा कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड

दिनांक: 16 जून, 2021 स्थानः दिल्ली

गुलशन आहुजा कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

प्रपत्र सं. यूआरसी-2 अधिनियम के अध्याय XXI के भाग I के तहत पंजीकरण के विषय में सूचना देते हुए विज्ञापन

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) तथा कम्पनी (पंजीकरण हेतु अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार]

1. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उपधारा (2) के अनुसार रजिस्ट्रा रा.रा.क्षे. दिल्ली तथा हरियाणा के समक्ष अबसे पन्द्रह दिनों के पश्चात किन्तु तीस दिनों की समाप्ति से पूर्व एक आवेदन किया जाना प्रस्तावित है कि **यम प्लम एलएलपी** को कम्पनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के तहत शेयरों द्वारा कम्पनी लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया जाये। 2. कम्पनी के प्रमख उददेश्य निम्नलिखित हैं :

i. भारत तथा विदेश में फूड प्रोसेसिंग, होटल, मोटल, मनोरंजन केन्द्र, हॉलिडे कैम्प, एम्यूजमेंट पार्क, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हाल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, पिकनिक स्पॉट, कैंटीन, कैटरर्स, कैफे, टेवर्न्स, पब, बार, बीयर हाउस, रीफ्रेशमेंट रूम, क्लब तथा लॉजिंग या अपार्टमेंट, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, हाउसकीपर, स्विमंग पूल, हेल्थ क्लब, बाथ, ड्रेसिंग रूम,

हेल्थ सेंटर, कांफ्रेंस सेंटर, जिम्नास्टिक्स, योगा सेंटर, मसाज तथा ब्यटी पार्लर का व्यवसाय। 3. प्रस्तावित कम्पनी के संगम ज्ञापन तथा प्रारूप संस्था नियमावली की एक प्रति कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एन-

4. एतद्वारा सुचित किया जाता है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (आईआईसीए), प्लॉट सं. 6, 7, 8, सेक्टर 5 आईएमटी मानेसर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा), पिनकोड-122050 पर तथा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय प एक प्रति भेजते हुए लिखित में अपनी आपत्तियाँ इस सूचना की प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर

146, प्रथम तल, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-110017, भारत पर निरीक्षित की जा सकती है।

दिनांक : 16 जून, 2021

आवेदक(कों) के नाम 2. अमित अजवानी

(निर्दिष्ट साझेदार)

(निर्दिष्ट साझेदार)

डीआरटी/कोर्ट के समक्ष काननी कार्रवाई करने वाले बैंक को यह नोटिस बिना किसी पर्वाग्रह के जारी किया जाता है, क्योंकि यह मामला डीआरटी/कोर्ट के समक्ष लंबित 2. अंकित वर्मा

प्राधिकृत अधिकारी